

क्रेडिट कार्ड ग्रीन पिन / ग्रीन पिन जनरेट करने के लिए एटीएम स्क्रीन प्रवाह

एटीएम टर्मिनल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड पिन 2 चरणों में सेट किया जाता है

प्रथम चरण : ओटीपी जनरेट करना

कार्ड को इंडियन बैंक के एटीएम मशीन में डालें। सबसे नीचे के विकल्प का चयन करें – जनरेट ओटीपी/ सेट पिन

“जनरेट ओटीपी” विकल्प का चयन करें

ग्राहक द्वारा जन्म तिथि प्रविष्ट करने का विकल्प प्रदर्शित होगा

कृपया अपनी जन्मतिथि को DD/MM/YYYY रूप में प्रविष्ट करें

आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर छः अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा जोकि 24 घंटे तक वैध होगा

द्वितीय चरण : पिन सेट करना

कार्ड को दुबारा एटीएम मशीन में डालें। सबसे नीचे के विकल्प का चयन करें - जनरेट ओटीपी / सेट पिन

“सेट पिन” विकल्प का चयन करें

कृपया DD/MM/YYYY रूप में अपनी जन्मतिथि एवं प्रथम चरण में आपके मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को प्रविष्ट करें

स्क्रीन पर आपको नया पिन सेट करें व पिन की पुष्टि करने का अनुरोध प्राप्त होगा

पिन को सफलता से सेट करने के बाद ग्राहक को उचित संदेश दिखाई देगा

आप इस नए क्रेडिट कार्ड पिन को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों एवं एटीएम में नकदी आहरण के लिए उपयोग कर सकते हैं।

ग्राहक क्रेडिट कार्ड पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड पिन सेट किया जाना

चरण 1

• कृपया ग्राहक क्रेडिट कार्ड पोर्टल वेबसाइट (www.indianbankcreditcard.in) पर जाएँ। फ़र्स्ट टाइम लॉगिन पर क्लिक करें / पंजीकृत मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी (यदि पंजीकृत नहीं है तो हमें creditcard@indianbank.co.in पर मेल करें) सहित कार्ड के विवरण प्रविष्ट करें।

चरण 2

• आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आप ओटीपी प्राप्त करेंगे। कृपया अगली स्क्रीन पर ओटीपी प्रविष्ट करें एवं अपना प्रयोक्ता आईडी व पासवर्ड सेट करें। अब आप अपने प्रयोक्ता आईडी व पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।

चरण 3

• ग्रीन पिन जनरेट करना : ग्राहक क्रेडिट कार्ड पोर्टल पर सफल लॉगिन के बाद कृपया टैब रीक्रेस्ट पर जाएँ एवं सेट एटीएम / पीओएस पिन का चयन करें। टैब पर क्लिक करें और आप पुनः ओटीपी प्राप्त करेंगे। पेज पर इस ओटीपी को प्रविष्ट करें व पेज पर इसे सबमिट करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड के लिए अपना 4 अंकों का नया पिन सेट कर सकेंगे।